

केन्द्रीय विद्यालय तोपखाना केंद्र नासिक रोडकेंप नासिक
भारत स्काउट / गाइड प्रतिवेदन 2018-19

विद्यालय में होने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के स्वागत में स्काउट / गाइड क्लर पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

विद्यालय में कुल 56 स्काउट , 91 गाइड , 57 कब , 43 बुलबुल और 15 प्रशिक्षित शिक्षक हैं ।

प्रशिक्षण व परीक्षण शिविर

दिनांक 27/4/2018 से 29/4/2018 तक केन्द्रीय विद्यालय एम आई आर सी अहमद नगर में सम्पन्न हुए तृतीय सोपान परीक्षण शिविर में 01 स्काउट (रीतिकेश) ने हिस्सा लिया । प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।

दिनांक 27/4/2018 से 29/04/2018 तक केन्द्रीय विद्यालय वी ई आर डी अहमद नगर में सम्पन्न हुए तृतीय सोपान परीक्षण शिविर में 06 गाइड (श्वेता , अंबिका , नयना , सुनैना , साक्षी सिंह , और रीतिका) ने हिस्सा लिया । सभी गाइड उत्तीर्ण होकर राज्य पुरस्कार परीक्षण के लिए चयनित हुई ।

दिनांक 04/407/2018 से 06/07/2018 तक केन्द्रीय विद्यालय नंबर 02 कोलाबा में सम्पन्न हुए राष्ट्रपति पुरस्कार परीक्षण शिविर में 02 स्काउट (तरुण गुप्त और करन जाधव) ने हिस्सा लिया ।

दिनांक 26/7/2018 से 30/07/2018 तक केन्द्रीय विद्यालय बी ई जी पूने में सम्पन्न हुए राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर में 02 स्काउट (शिवम के और यश आर) ने हिस्सा लिया । प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । दिनांक 26/7/2018 से 30/07/2018 तक केन्द्रीय विद्यालय सी एम ई जी पूने में सम्पन्न हुए राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर में 03 गाइड (साक्षी सोहरा , दीपा चंदेल और यश धनश्री उनवने) ने हिस्सा लिया । प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।

स्वतन्त्रता दिवस प्रभात फेरी – प्रतिवेदन

स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय प्राचार्या श्रीमती बी नेगी की अध्यक्षता में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया । इस प्रभात फेरी में लगभग 150 स्काउट / गाइड और 15 प्रशिक्षित शिक्षकों ने हिस्सा लिया । प्रभात फेरी टोली को विद्यालय प्राचार्या श्रीमती बी नेगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया । स्काउट लीडर यश रूपावटे राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे – आगे चल रहे थे , उनके पीछे – पीछे कलर पार्टी के स्काउट / गाइड और स्काउट / गाइड विजयी विश्व तिरंगा प्यारा , झण्डा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए , हाथ में आजादी से संबन्धित नारे (देश को आगे बढ़ाना है , आज स्वतन्त्रता दिवस मानना है ।

अपने देश पर हमें गर्व है , आज आजादी पर्व है । तिरंगा हमारी शान है , हम भारतीयों की जान है । हमारी जान हमारी शान , प्यारा भारत हिंदुस्तान । पंद्रह अगस्त पर अभिमान करो , स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान करो । भारत माता की जय ----
----- आदि) लगाते हुए विद्यालय से वडनेर गाँव , शिवराज नगर , वडनेर गेट होते हुए वापसी में विद्यालय पहुंचे । प्रभात

फेरी बहुत

ही खुशनुमा वातावरण में सम्पन्न हुई ।

